



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223]

No. 223]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 27, 2002/भाद्र 5, 1924

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 27, 2002/BHADRA 5, 1924

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2002

प्रारम्भ (समीक्षा)

विषय : पोलैंड, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, रूस, ईरान, अमरीका तथा यूरोपीय संघ से ओक्सो एल्कोहल के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क से संबंधित समीक्षा की शुरुआत।

सं. 40/1/2001-डीजीएडी.— निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली और क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अधीन दिनांक 17 जुलाई, 2000 की अधिसूचना सं. 15/1/99-डीजीएडी द्वारा पोलैंड दक्षिण कोरिया, इण्डोनेशिया, सऊदी अरब, रूस ईरान, अमरीका तथा यूरोपीय संघ मूल के अथवा वहां से निर्यातित, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की अनुसूची-1 के सीमाशुल्क कोड-2905 के अन्तर्गत वर्गीकृत ओक्सो अल्कोहल के विभिन्न किस्मों के आयातों पर अंतिम रूप से पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश की थी। भारत सरकार ने दिनांक 27.1.2000 की अधिसूचना सं. 6/2000-सीमाशुल्क के द्वारा अंतिम पाटनरोधी शुल्क लागू किया था। दिनांक 18 अगस्त, 2000 की अधिसूचना सं. 109/2000-सीमाशुल्क द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी, जिसमें माननीय सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (सीगेट) के दिनांक 11.4.2001 के आदेशों द्वारा आंशिक रूप से संशोधन किया गया था।

विचाराधीन उत्पाद

2 विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित एसआईकेल एल्कोहल एवं इनके हेलोजिनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा निट्रोसेटेड अवकलज हैं जिन्हें वाणिज्यिक तथा तकनीकी शब्दावली में ओक्सो

एल्कोहल के रूप में जाना जाता है और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची-1 के सीमाशुल्क उपशीर्ष सं० 2905 के तहत परिभाषित हैं।

- (i) 2-इथाइल हैक्सानोल (2-ईएचए नाम से भी ज्ञात)
- (ii) नार्मल बुटानॉल (एनबीए के नाम से भी ज्ञात)
- (iii) आइसो बुटानोल (आईबीए के नाम से भी ज्ञात)
- (iv) आइसो ओक्टानोल
- (v) आइसो डेकानोल
- (vi) नार्मल हेक्सानोल
- (vii) हेप्टानोल (आईसो हेप्टानोल एवं नार्मल हेप्टानोल)
- (viii) नोनानोल (आईसो नोनानोल एवं नार्मल नोनानोल)
- (ix) ट्राइ डेकानोल
- (x) 2 प्रोपाइल हेप्टानोल

तथापि, उपरोक्त सीमाशुल्क वर्गीकरण मात्र सांकेतिक है और वर्तमान जाच के कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं हैं।

प्रारंभ

3 सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा इसके तहत बने नियमों के अनुसार पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए समय-समय पर प्राधिकारी द्वारा समीक्षा करना आवश्यक है। प्राधिकारी ने 29 जुलाई 1999 की अधिसूचना के द्वारा पोलेण्ड, दक्षिण कोरिया, इण्डोनेशिया, सऊदी अरब, रूस, ईरान, अमरीका, तथा यूरोपीय संघ मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित ओक्सो एल्कोहल के पाटन के सबंध में जाँच की शुरुआत के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 17 जुलाई, 2000 की अधिसूचना के द्वारा अंतिम जाँच परिणामों को अधिसूचित किया। बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर, निर्दिष्ट प्राधिकारी अब यह मानते हैं कि सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 के खण्ड 9 क(5) के प्रावधान के तहत पहले से सिफारिश किये गये पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा इस स्तर पर करना उचित होगा।

प्रक्रिया

4 दिनांक 17 जुलाई, 2000 की अधिसूचना सं. 15/1/99-डीजीएडी के द्वारा अधिसूचित अंतिम जाच परिणामों की समीक्षा करने का निर्णय लेने के बाद प्राधिकारी एतद्वारा सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 एवं सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियम 1995 के अनुसार पोलेण्ड, दक्षिण कोरिया, इण्डोनेशिया, सऊदी अरब, रूस, ईरान, अमरीका तथा यूरोपीय संघ मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित ओक्सो एल्कोहल की विभिन्न किस्मों के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा संबंधी जाँच आरंभ करते हैं।

5 इस समीक्षा में दिनांक 17 जुलाई, 2000 की अधिसूचना सं० 15/1/99-डीजीएडी के सभी पहलु शामिल हैं।

6. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि 1 अप्रैल, 2001 से 31 मार्च, 2002 तक की है।

7. पिछली जाँच में ओक्सो एल्कोहल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने घरेलू उत्पादकों अर्थात् मै0 इंदु निशान-ओक्सो कैमिकल इंडस्ट्रीज लि0, मुम्बई, नेशनल आर्गेनिक कैमिकल इंडस्ट्रीज लि0 मुम्बई, आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स लि0 हैदराबाद का प्रतिनिधित्व किया था। यह रिपोर्ट मिली है कि मै0 इंदु निशान ओक्सो कैमिकल इंडस्ट्रीज लि0, मुम्बई तथा मै0 नोसिल, मुम्बई ने संबद्ध वस्तु का उत्पादन बन्द कर दिया है। तथापि, मै0 आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स लि0 हैदराबाद संबद्ध वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

8. **सूचना प्रस्तुत करना:-** संबद्ध देश के निर्यातको, भारत में ज्ञात संबंधित आयातकों तथा उपयोक्ताओं एवं घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन
नई दिल्ली-110011

को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग-अलग पत्र भेजे जा रहे हैं।

9. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे लिखी समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित ढंग से जाँच से संबंधित अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

समय सीमा

10. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध प्राधिकारी को उपरोक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस दिनों के भीतर पहुँच जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण हो तो निर्दिष्ट प्राधिकारी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों आधार पर अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

11. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश दिए गए हैं।

12. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना देने से मना करता है या उचित समय के भीतर अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जाँच में पर्याप्त बाधा डालता है तो प्राधिकारी, अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

एल. सी. सप्ताश्रुषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2002

Initiation (Review)

Subject : Initiation of review regarding anti-dumping duty imposed on Oxo Alcohols imports from Poland, South Korea, Indonesia, Saudi Arabia, Russia, Iran, USA and European Union.

No. 40/1/2001-DGAD.—The Designated Authority having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof recommended imposition of definitive Anti Dumping duty on imports of various forms of Oxo Alcohols classified under Customs Code 2905 of Schedule I of the Customs Tariff Act 1975, originating in or exported from Poland, South Korea, Indonesia, Saudi Arabia, Russia, Iran, USA and European Union vide Gazette Notification No. 15/1/99-DGAD dated 17th July, 2000. The Government of India imposed provisional Anti Dumping Duty vide Notification No.6/2000-Customs dated 27.1.2000. This was confirmed by Notification No. 109/2000-CUSTOMS dated 18th August, 2000, which has been partially modified by the orders dated 11.4.2001 of Hon'ble Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal (CEGAT).

Product Under Consideration

2. Product under consideration is following acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives, known as Oxo Alcohols in the commercial and technical parlance and defined under customs sub-heading No. 2905 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975.

- (i) 2-Ethyl Hexanol (also known as 2-EHA)
- (ii) Normal Butanol (also known as NBA)
- (iii) Iso Butanol (also known as IBA)
- (iv) Iso Octanol
- (v) Iso Decanol
- (vi) Normal Hexanol
- (vii) Heptanol (Iso Heptanol and Normal Heptanol)
- (viii) Nonanol (Iso Nonanol and Normal Nonanol)
- (ix) Tri Decanol
- (x) 2 Propyl Heptanol

The above Customs classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigations.

Initiation

3. The Customs Tariff (Amendment) Act 1995 and the Rules made there under require the Authority to review, from time to time, the need for continuance of Anti Dumping Duty. The Authority issued public notice vide Notification dated 29th July, 1999 for initiation of investigations into dumping of Oxo Alcohols originating in or exported from Poland, South Korea, Indonesia, Saudi Arabia, Russia, Iran, USA and European Union. The Designated Authority notified the final findings vide Notification 15/1/99-DGAG dated 17th July, 2000. In view of the changed circumstances, the Designated Authority now considers that a review of the Anti Dumping Duty recommended would be appropriate at this stage under the provision of Section 9A (5) of Customs Tariff(Amendment) Act 1995.

Procedure

4. Having decided to review the final findings notified vide No. 15/1/99-DGAD, dated 17th July, 2000, the Authority hereby initiates investigations to review the need for continued imposition of Anti Dumping Duty on imports of various forms of Oxo Alcohols originating in or exported from Poland, South Korea, Indonesia, Saudi Arabia, Russia, Iran, USA and European Union in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment & Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995.

5. The review covers all aspects of Notification No. 15/1/99-DGAD, dated 17th July, 2000.

6. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April 2001 to 31st March 2002.

7. Oxo Alcohols Industries Association represented the domestic producers, viz., Messrs. Indu Nissan Oxo Chemical Industries Limited, Mumbai; National Organic Chemical Industries Ltd., Mumbai and Andhra Petrochemicals Ltd., Hyderabad in the previous investigations. It has been reported that M/s. Indu Nissan Oxo Chemical Industries Ltd., Mumbai and M/s. NOCIL, Mumbai have suspended production of the subject goods. However, M/s. Andhra Petrochemicals Ltd., Hyderabad continues to produce the subject goods and represent the domestic industry.

8. **Submission of Information:** The exporters in subject countries, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being

26946/2-2

addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the-

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Department of Commerce
Udyog Bhavan
New Delhi-110011.

9. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time Limit

10. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

Inspection of Public File:

11. In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

12. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L V SAPTHARISHI, Designated Authority